



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2006/फाल्गुन 10, 1927

No. 183]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2006/PHALGUNA 10, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2006

सं. 25/2006-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 267(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (गै.टै.) में और आगे एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :—

“सारणी

क्रम सं.	अध्याय शीर्ष/उपशीर्ष	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर)(प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1511 1000	कच्चा पाम तेल	437
2.	1511 90 10	आर बी डी पाम तेल	452
3.	1511 90 90	अन्य—पाम तेल	445
4.	1511 1000	कच्चा पामोलिन	459
5.	1511 90 20	आर बी डी पामोलिन	462
6.	1511 90 90	अन्य—पामोलीन	461
7.	1507 1000	कच्चा सोयाबीन तेल	524
8.	7404 00 22	पीतल स्क्रेप (सभी श्रेणी)	2273”

[फा. सं. 467/87/2005-सीमा शुल्क-V]

एस. पी. राव, अवर सचिव

टिप्पणी :— मूल अधिसूचना, दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा शुल्क (गै. टै.) [का.आ. 748(अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001] के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार उसे दिनांक 17 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं. 11/2006-सीमा शुल्क (गै. टै.) [का.आ. 220(अ), दिनांक 17 फरवरी, 2006] के तहत संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS
NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2006

No. 25/2006-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 267(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Board, being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 36/2001-Cus. (N.T.), dated, the 3rd August, 2001, namely :—

In the said notification, for the table, the following table shall be substituted namely :—

"TABLE

Sl. No.	Chapter heading/sub-heading	Description of goods	Tariff value U S \$ (Per Metric Tonne)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1511 1000	Crude Palm Oil	437
2.	1511 90 10	RBD Palm Oil	452
3.	1511 90 90	Others—Palm Oil	445
4.	1511 10 00	Crude Palmolein	459
5.	1511 90 20	RBD Palmolein	462
6.	1511 90 90	Others—Palmolein	461
7.	1507 10 00	Crude Soyabean Oil	524
8.	7404 00 22	Brass Scrap (all grades)	2273''

[F. No. 467/87/2005-Cus. V]

S. P. RAO, Under Secy.

Note :—The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* Notification No. 36/2001-Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001 [S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001] and was last amended *vide* Notification No. 11/2006-Customs (N.T.), dated, the 17th February, 2006 [S. O. 220(E), dated the 17th February, 2006].